



# Government Arts and Science College

## Ratlam (M.P.) 457001



Phone: 07412 - 235149


E-mail: hegaaspgcrat@mp.gov.in, pgcolrtm@hotmail.com

For the session 2022-23 the syllabus applied respectively in UG I and II have been adopted from Central Board of Studies Bhopal designed according to NEP2020. For UG III and PG the syllabus of the previous session have been followed.


*[Handwritten signature]*  
Principal  
**Principal**  
Govt. Arts and Science College  
Ratlam (M.P.)  
Ratlam (M.P.)

## सैद्धांतिक प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम

भाग अ- परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र	कक्षा : वीएससी. प्रथम	वर्ष: 2021	सत्र: 2022-23
विषय: वनस्पति शास्त्र			
1 पाठ्यक्रम का कोड		S1-BOTA <sub>1T</sub>	
2 पाठ्यक्रम का शीर्षक		अनुप्रयुक्त वनस्पति शास्त्र (पेपर <sub>1</sub> )	
3 पाठ्यक्रम का प्रकार : (कोर कोर्स/इलेक्ट्रिव/जेनेरिक इलेक्ट्रिव/वोकेशनल/.....)		कोर कोर्स(मूल पाठ्यक्रम)	
4 पूर्वपिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)		इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र नेवनस्पति विज्ञान/ जीव विज्ञान/ विषयसे कक्षा/12वीं अध्ययन किया हो।	
5 पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलिखियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)		इस पाठ्यक्रम के अंत तक छात्र के पास होना चाहिए:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• वनस्पति विज्ञान के महत्व और भूमिका को समझा।</li> <li>• अनुप्रयुक्त वनस्पति विज्ञान के बुनियादी पहलुओं को सीखा।</li> <li>• वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा</li> <li>• वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में स्टार्टअप के अवसरों के- बारे में जानकारी प्राप्त करेगा</li> <li>• सामाजिक सेवाओं के अवसरों के बारे में सीखा</li> <li>• सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्रथाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा</li> </ul>
6 क्रेडिट मान		4 क्रेडिट	
7 कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33	
भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
व्याख्यानों की कुल संख्या- 60 घंटे छूटोरियल- 00 प्रैक्टिकल -00 ( प्रति सप्ताह 04 घंटे)			
एल/टी/पी:			
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या	
I	1.1 परिचय, उद्देश्य और महत्व अनुप्रयुक्त वनस्पति विज्ञान 1.2 वनस्पति विज्ञान का इतिहास और विकास 1.3 पादप का मनुष्य और अन्य सेवाएं के साथ संबंध 1.4 वनस्पति विज्ञान के विभिन्न विषय और उनके मानव कल्याण के लिए आवेदन	12	
II	1.1 प्रदूषण और प्रदूषकों-परिभाषा और प्रकार 1.2 फाइटोरेमेडिएशन : वायु, जल, मिट्टी, शोर और थर्मल प्रदूषक (कोई भी 5 पौधे वानस्पतिक नाम, और कुल) और प्रदूषण नियंत्रण में उनकी भूमिका। 1.3 वायोरेमेडिएशन: परिभाषा और प्रकार	12	

  
 (Dr. K.W. Shah)

<b>III</b>	<p>1.1 प्राचीन कृषि पद्धतियाँ।</p> <p>1.2 आधुनिक कृषि पद्धतियाँ: पॉलीहाउस, ड्रिप सिंचाई, हाइड्रोपोनिक्स, कंप्यूटर आधारित कृषि, टेरेस गार्डन</p> <p>1.3 जैविक खेती: परिचय, उद्देश्य और संक्षिप्त तकनीक</p> <p>1.4 बागवानी: परिभाषा और भूमिका</p> <p>1.5 वानिकी: परिभाषा, शाखाएँ और मानव कल्याण में भूमिका</p> <p>1.6 सिल्वीकल्चर: परिभाषा और प्रवंधनकार्य प्रणाली</p>	12
<b>IV</b>	<p>1.1 ग्रामीण विकास में वनस्पति विज्ञान की भूमिका</p> <p>1.2 मानव वनस्पति विज्ञान (एथ्नोबोटनी)::परिचय और महत्व</p> <p>1.3 एथ्नोमेडिसिन : परिभाषा और उदाहरण। ( नीम , अलेओ, लौंग, अदरक, तुलसी , हल्दी, गिलोय , आवला, अश्वगंधा , अरंडी (स्थानीयनाम, वानस्पतिक नाम, कुल और महत्व )</p> <p>1.4 एथ्नो-फाइबर : परिभाषा और उदाहरण <b>जूट</b>, <b>इन्सुल</b>, नारियल, हाथी धास, कपास (स्थानीयनाम, वानस्पतिक नाम, कुल और महत्व )</p> <p>1.5 एथ्नो -खाद्य फसल: परिभाषा और उदाहरण गराङ्गसिंगदा कुट्टी, समा, कोदों, बथुआ, सहजन, ज्वार, मङ्गा, बाजरा, जौ (स्थानीयनाम, वानस्पतिक नाम, कुल और महत्व )</p>	12
<b>V</b>	<p>1.1 पादप ऊतक संवर्धन : परिभाषा, प्रकार और महत्व।</p> <p>1.2 डीएनए पुनः संयोजक तकनीक : परिचय, औजार और महत्वर्वतमान युग में तकनीक की भूमिका <b>1.3</b></p> <p>जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान: परिभाषा, अवधारणा और औजार</p> <p>1.4 जैव सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान सॉफ्टवेयर का परिचय : ब्लास्ट और फास्टा</p> <p>1.5 जैव सूचना विज्ञान का महत्व</p> <p>मुख्य शब्द: पादप ऊतक संवर्धन , पादप ऊतक संवर्धन , जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान <b>BLAST, FASTA</b></p>	12
<p>सार बिंदु (कीवर्ड)/टैग: अनुप्रयुक्त वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का इतिहास, वनस्पति विज्ञान का विकास, मानव कल्याण में वनस्पति विज्ञान, प्रदूषण, प्रदूषक, पादप उपचार, जैवउपचार, हाइड्रोपोनिक्स, पॉलीहाउस, टेरेस गार्डन, जैविक खेती, बागवानी, सिल्वीकल्चर, मानव वनस्पति विज्ञान (एथ्नोबोटनी, एथ्नो-फाइबर, जातीय-खाद्य फसलें, जैव सूचना प्रौद्योगिकी, BLAST, FASTA पुनः संयोजक डीएनए, पादप ऊतक संवर्धन</p>		


  
 DR. K. V. SHAH

**भाग स-अनुशंसित अध्ययन संसाधन**

पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

**अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:**

1. लेवेटिन ई. और मैकमोहन के. "प्लांट्स एंड सोसाइटी" मैक ग्रो हिल एजुकेशन। २००७
2. मैतीआर., रोड्रिग्ज एच.जी. और ठाकुर ए.एस. "एप्लाइड वॉटनी" अमेरिकन एकेडमिक प्रेस। 2017
3. नेगी एस. एस. "वन वनस्पति विज्ञान" मेसर्स विश्वन सिंह माफेंद्र पाल सिंह। 2012.
4. अग्रहारी आर.पी. "पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन" मैक ग्रो हिल एजुकेशन। 2020
5. शर्मा डी.के. "जैव विविधता संरक्षण: वर्तमान स्थिति और भविष्य की रणनीतियाँ" प्रकाशन लिखें और प्रिंट करें। 2017
6. सिंह जे। "जैव विविधता पर्यावरण और स्थिरता" एमडी प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। 2008
7. गुप्ता पी.के. "आणविक जीवविज्ञान और आनुवंशिक इंजीनियरिंग" रस्तोगी प्रकाशन। 2005
8. शर्मा वी., मुंजाल ए. और शंकर ए. "वायोइनफॉरमैटिक्स" रस्तोगी प्रकाशन। 2008

**2. अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक:**-----

**अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:**-----

**भाग द -अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:**


**अनुशंसितसतत मूल्यांकन विधियां:**

अधिकतम अंक: 100

सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 25विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक: 75

आंतरिक मूल्यांकन: सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	क्लास टेस्ट असाइनमेंट/प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	15 10 <b>कुल अंक :25</b>
आकलन : विश्वविद्यालयीन परीक्षा: समय- 02.00 घंटे	अनुभाग (अ): तीन अति लघु प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्द) अनुभाग (ब): चार लघु प्रश्न (प्रत्येक 200 शब्द) अनुभाग (स): दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द)	03 x 03 = 09 04 x 09 = 36 02 x 15 = 30 <b>कुल अंक 75</b>

कोई टिप्पणी/सुझाव:

  
 (Dr. K.W. SHAH)

### Part A Introduction


Program: Certificate		Class: B.Sc. 1 <sup>st</sup> year	Year : 2021	Session: 2022-23
Subject: Botany				
1	Course Code	S1-BOTAN1T		
2	Course Title	Applied Botany (Paper I)		
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/.....)	Core Course		
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Biology/ Life Sciences/ Agriculture in class/12th		
5	Course Learning outcomes (CLO)	By the end of this course the student should have: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Understood the significance and role of botany.</li> <li>• Learnt the basic aspects of applied botany.</li> <li>• Gained knowledge about employment opportunities in field of botany</li> <li>• Gained knowledge about start-up opportunities in the field of botany</li> <li>• Learnt about opportunities of social services</li> <li>• Gain knowledge about best health practices</li> </ul>		
6	Credit Value	04 Credits		
7	Total Marks	Max. Marks: 25+75	Min. Passing Marks:33	

### Part B- Content of the Course


Total No. of Lectures- 60 Hours Tutorials- 00 Practical -00 ( 04 hours per week):

L-T-P:

Unit	Topics	No. of Lectures
I	1.1 Introduction, objectives and importance of Applied botany 1.2 History and evolution of botany 1.3 Relation of plants to man and relation with other services 1.4 Various disciplines of botany and their applications to human welfare	12
II	1.1 Definition and types of pollution and pollutants <b>1.2 Phytoremediation:</b> Air, water, soil, noise and thermal pollutants (Any 5 plants with botanical name, family) and their role in pollution control. 1.3 Bioremediation: definition and types	12
III	1.1 Ancient agricultural practices. <b>1.2 Modern agriculture practices:</b> Polyhouse, Drip irrigation, hydroponics, computer-based agriculture,	12

  
 Dr. K. W. Shah  
 29/5/21

	<p>terrace farming,</p> <p><b>1.3 Organic farming:</b> Introduction, objective and brief technique</p> <p><b>1.4 Horticulture:</b> Definition and role in human welfare</p> <p><b>1.5 Forestry:</b> Definition, branches and role in human welfare</p> <p><b>1.6 Silviculture:</b> Definition and management practices</p>	
IV	<p><b>1.1 Role of Botany in Rural development</b></p> <p><b>1.2 Ethnobotany:</b> Introduction and importance</p> <p><b>1.3 Ethnomedicine:</b> Definition and examples. (Local name, Botanical name, family and importance of Neem, Aloe, Clove, Ginger, Tulsi, Turmeric, Giloy, Emblica, Ashwagandha, Arandi)</p> <p><b>1.4 Ethno-fibres:</b> Definition and examples (Local name, Botanical name, family and importance of Jut, Coconut, elephant grass, cotton)</p> <p><b>1.5 Ethno-food crops:</b> Definition and examples (Local name, Botanical name, family and importance of Garadu, Singada, Kutaki, Sama, Kodo, Bathua, Sehjan, Jowar, Makka, Bajra, Jau)</p>	12
V	<p><b>1.1 Plant tissue culture:</b> Definition, types and Importance.</p> <p><b>1.2 DNA Recombinant technique:</b> Introduction, tools and importance</p> <p><b>1.3 Role of recombination in present era</b></p> <p><b>1.4 Bioinformatics:</b> Definition, concept and tools</p> <p><b>1.5 Introduction of bioinformatics software:</b> Basic idea of BLAST and FASTA Importance of bioinformatics</p>	12
<p><b>Keywords/Tags:</b> Applied Botany, History of Botany, Evolution of Botany, Botany in human welfare, : Pollution, Pollutants, Phytoremediation, Bioremediation, Hydroponics, polyhouse, Terrace farming, Organic farming, Horticulture, Silviculture, Ethnobotany, Ethnomedicine, Ethno-fibers, Ethno-food crops, Bioinformatics, BLAST, FASTA, Recombinant DNA, Plant tissue culture</p>		
<h3>Part C-Learning Resources</h3>		
<h4>Text Books, Reference Books, Other resources</h4>		
<p><b>Suggested Readings:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Levetin E. and McMahon K. "Plants and Society" McGraw Hill Education. 2007</li> <li>2. Maiti R., Rodríguez H. G. and Thakur A. S. "Applied Botany" American Academic Press. 2017</li> <li>3. Negi S. S. "Forest Botany" M/s Bishen Singh Mafendra Pal Singh. 2012.</li> <li>4. Agrahari R. P. "Environmental Ecology, Biodiversity, Climate Change and Disaster Management" McGraw Hill Education. 2020</li> <li>5. Sharma D. K. "Biodiversity Conservation: Current Status and Future Strategies" Write and Print Publication. 2017</li> <li>6. Singh J. "Biodiversity Environment and Sustainability" MD Publications Pvt Ltd/ 2008</li> <li>7. Gupta P. K. "Molecular Biology and Genetic Engineering" Rastogi Publications. 2005</li> <li>8. Sharma V., Munjal A. and Shankar A. "Bioinformatics" Rastogi Publications. 2008</li> </ol>		


  
 Dr. K. N. SHAH

2. Suggestive digital platforms web links

Suggested equivalent online courses:

### Part D-Assessment and Evaluation

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Maximum Marks : 100

Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 25marks University Exam (UE) 75 marks

<b>Internal Assessment :</b> Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):25	Class Test Assignment/Presentation  	15 10 Total =25
<b>External Assessment :</b> University Exam Section: 75 Time : 02.00 Hours	<b>Section(A)</b> : Three Very Short Questions (50 Words Each) <b>Section (B)</b> : Four Short Questions (200 Words Each) <b>Section (C)</b> : Two Long Questions (500 Words Each)	03 x 03 = 09  04 x 09 = 36 02 x 15 = 30 Total 75

Any remarks/ suggestions:

D W C b  
(Dr. K W SHAH)  
29/5/21


## प्रायोगिक प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम हेतु

भाग अ – परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र		कक्षा : प्रथम वर्ष	वर्ष:: 2021
विषय:			
1	पाठ्यक्रम का कोड	<b>S1-BOTA1P</b>	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	अनुप्रयुक्त वनस्पतिशास्त्र प्रायोगिक (प्रश्न पत्र I.)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार :(कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/.....)		
4	पूर्वपिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र ने विषय वनस्पतिविज्ञान/जीव विज्ञान/ जीवन विज्ञान का अध्ययन कक्षा 12वीं में किया हो। .	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलक्षियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	इस पाठ्यक्रम के अंत में छात्र इथनोइथनो-वनस्पतिशास्त्र, उत्क संवर्धन, जैव सूचना प्राध्योगिकी सॉफ्टवेयर का उपयोग, एवं रिकाम्बीनेंट DNAतकनीकी की प्रायोगिन जानकारी प्राप्त कर लेंगे।	
6	क्रेडिट मान	02	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33

### भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु

व्याख्यान की कुल संख्या-00- घूटोरियल-00- प्रायोगिक -30- (प्रति सप्ताह 02 घंटे में): L-T-P:

इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या
I	<ol style="list-style-type: none"> <li>इथनो वांस्पतिक पादप की पहचान-</li> <li>स्थानेय कृषि क्षेत्र की मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करना</li> <li>बर्मीकम्पोस्ट व रसोईघर से निकले उत्सर्जी पदार्थों की कम्पोस्टिंग का अध्ययन</li> <li>BLAST व FASTA का उपयोग</li> <li>स्थानीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण वायु, जल व मृदा रदुपको की सूची तैयार करना।</li> <li>पादप उत्क संवर्धन की विसंक्रमण, इनाकुलेशन, संवर्धन माध्यम, अनुकूलन व कठोरता का अध्ययन</li> </ol>	30


  
 (Dr. K.W. SHAH)

	<p>7. स्थानीय उपलब्ध इथनोऔषधीय, खाद्य व तंतु प्रदान करने वाले पादपो की सूची तैयार करना</p> <p>8. DNA रिकाम्बीनेट तकनीकी के औजारों का अध्ययन : रेस्ट्रीक्शन एंजाईम, प्लाज्मिड वेक्टर व अन्य एंजाईम</p> <p>9. वैश्विक तपन, अम्ल वर्षा व जल गुणवत्ता (pH व Conductivity) का अध्ययन</p> <p>10. स्थानीय स्तर पर कृषि क्षेत्रों के चारों ओर उगने वाले पौधों का अध्ययन</p> <p>11. उपकब्धता व सैद्धांतिक आधार पर प्रयोगों की सूची बनाई जा सकती है।</p> <p>12. स्थानीय प्रकृति के आधार पर मैदानीय क्षेत्रों का अध्ययन किया जा सकता है।</p>	

सार बिंदु (की वर्ड)/टैग:

भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:

1. लेवेटिन ई. और मैकमाहन के. ; Plants and Society ; मैक ग्रो हिल एजुकेशन 2007
2. मैतीआर., रोड्रिग्ज एच.जी. और ठाकुर ए.एस.;Applied Botany अमेरिकन एकेडमिक प्रेस 2017
3. नेगी एस. एस.;फारेस्ट वाटनी; मेसर्स विश्वन सिंह महेंद्रपाल सिंह 2012.
4. अग्रहारी आर.पी. "Environmental Ecology, Biodiversity, Climate Change and Disaster Management" मैक ग्रो हिल एजुकेशन 2020
5. शर्मा डी.के."Biodiversity Conservation: Current Status and Future Strategies"राइट एंड प्रिंट प्रकाशन 2017
6. सिंह जे "Biodiversity Environment and Sustainability" एमडी प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 2008
7. गुप्ता पी.के. "Molecular Biology and Genetic Engineering"रस्तोगी प्रकाशन 2005
8. शर्मा वी., मुंजाल ए. और शंकर ए.;Bioinformatics; रस्तोगी प्रकाशन
  
2. अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:


*(Dr. K.N. SHAH)*

भाग द-अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:


अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:

आतंरिकमूल्यांकन	अंक	बाह्यमूल्यांकन	अंक
कक्षामेंसंवाद/प्रश्नोत्तरी	10	प्रायोगिकमौखिकी (वायवा)	15
उपस्थिति	5	प्रायोगिकरिकॉर्डफाइल	10
असाइनमेंट (चार्ट/मॉडल/सेमिनार/ग्रामीणसेवा/प्रौद्योगिकीप्रसार/भ्रमण(कस्कर्शन)कीरिपोर्ट/सर्वेक्षण/प्रयोगशालाभ्रमण(लैवविजिट)/औद्योगिकयात्रा	10	टेबलवर्क/प्रयोग	50
कुलअंक	25		75

कोईटिप्पणी/सुझाव: टेबल कार्य/ प्रयोग स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधन पर आधारित होंगे।


  
 Dr. K.N. SHAH

Part A Introduction			
Program: Certificate 1 <sup>st</sup> year		Class: B.Sc.	Year: 2021
Subject: Botany			
1	Course Code	S1-BOTANIP	
2	Course Title	Applied Botany Practical (paper I)	
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/.....)	Core Course	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject Botany, Biology, Life Science in class/12th/.	
5	Course Learning outcomes (CLO)	<p>On completion of this course, learners will be able to:</p> <p>By the end of this course the student should have knowledge of practical skill related with ethnobotany, tissue culture, application of bioinformatics software and tools of recombinant DNA technology.</p>	
6	Credit Value	2 Credits	
7	Total Marks	Max. Marks: 25+75	Min. Passing Marks: 33
Part B- Content of the Course			
Total No. of Lectures-Tutorials-Practical (in hours per week): L-T-P:			
Unit	Topics		
I	<ol style="list-style-type: none"> <li>Identification of ethnomedicinal plants</li> <li>Preparation of soil health card of any agricultural field</li> <li>Study of vermicompost and composting of kitchen waste</li> <li>Use of BLAST and FASTA</li> <li>Prepare the list of important air, water and soil pollutants of local areas</li> <li><b>Plant tissue culture technique:</b> sterilization, inoculation, culture media, acclimatization and hardening,</li> <li>Preparation of list of ethnomedicinal, food, fibre plant locally available</li> <li><b>Tools of recombinant DNA technology:</b> Restriction, enzymes, plasmid vectors, other enzymes</li> <li>Study of global warming, acid rain and water</li> </ol>	30	


  
 Dr. K.W. Shah

	<p>quality (pH and Conductivity),</p> <p>10. Study of local plants grown around agricultural field</p> <p>11. * Practical can be decided on theory basis according to availability.</p> <p>12. * Case and field study can be designed accordingly.</p>	
--	--	--

**Keywords/Tags:**

<b>Part C-Learning Resources</b>
Text Books, Reference Books, Other resources


**Suggested Readings:**

1. Levetin E. and McMahon K. "Plants and Society" Mc Graw Hill Education. 2007
2. Maiti R., Rodríguez H. G. and Thakur A. S. "Applied Botany" American Academic Press. 2017
3. Negi S. S. "Forest Botany" M/s Bishen Singh Mafendra Pal Singh. 2012.
4. Agrahari R. P. "Environmental Ecology, Biodiversity, Climate Change and Disaster Management" Mc Graw Hill Education. 2020
5. Sharma D. K. "Biodiversity Conservation: Current Status and Future Strategies" Write and Print Publication. 2017
6. Singh J. "Biodiversity Environment and Sustainability" MD Publications Pvt Ltd/ 2008
7. Gupta P. K. "Molecular Biology and Genetic Engineering" Rastogi Publications. 2005
- Sharma V., Munjal A. and Shankar A. "Bioinformatics" Rastogi Publications. 2008.

**Suggestive digital platforms web links**

**Suggested equivalent online courses:**


<b>Part D-Assessment and Evaluation</b>
---


  
 Dr. K. N. SHAH

**Suggested Continuous Evaluation Methods:**


Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction /Quiz	10	Viva Voce on Practical	15
Attendance	5	Practical Record File	10
Assignments (Charts/ Model Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey / Industrial visit)	10	Table work / Experiments	50
TOTAL	25		75

**Any remarks/ suggestions:**


  
 Dr. K.W. Shah

## वनस्पति विज्ञानसैद्धांतिक प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम


भाग अ- परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाण पत्र/	कक्षा : प्रथम वर्ष	वर्ष:: 2021	सत्र: 2022-23
विषय: वनस्पति शास्त्र			
1 पाठ्यक्रम का कोड			<b>S1-BOTA2T</b>
2 पाठ्यक्रम का शीर्षक			आधारभूत वनस्पतिशास्त्र(प्रश्न पत्र <b>II</b> )
3 पाठ्यक्रम का प्रकार :(कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/.....)			कोर्स
4 पूर्वपिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)			इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र नेवनस्पति विज्ञान/ जीव विज्ञान/ विषयसे कक्षा/12वीं अध्ययन किया हो।
5 पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलक्षियां (कोर्स लर्निंग आउटकम)(CLO)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• यह पाठ्यक्रम विद्यार्थी को पादप की विविधता, पादप जगत में विकासवादी प्रक्रिया को समझने में मदद करेगा।</li> <li>• यह जलीय से स्थलीय आवासकी स्थापना के लिए पादप के अनुकूलन का विवरण देता है।</li> <li>• पादप के विकास को बढ़ावा देने वाले आकारिकी, अन्तरिक और वाहरी सरचना और प्रजनन संरचनाओं में परिवर्तन का अध्ययन किया जाएगा।</li> <li>• प्रकृति में पादप के आर्थिक महत्व को समझा जाएगा।</li> <li>• वे, पादप और मानव में सूक्ष्मजीव जनित रोगों से परिचित होंगे।</li> </ul>
6 क्रेडिट मान			कुल क्रेडिट = 4
7 कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75		न्यूनतम उत्तीर्ण अंक:33
भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
व्याख्यानों की कुल संख्या- 60 -स्टूटोरियल- 0 प्रैक्टिकल =0(सिद्धांतिक प्रति सप्ताह 4 घंटे):			
एल-टी-पी:			
इकाई	विषय		व्याख्यान की संख्या

  
 (Dr. K.N. SHINDE)

I	<p>1.1 वनस्पति विज्ञान और भारतीय योगदान का इतिहास।</p> <p>1.2 निम्न पादपऔर उच्च पादप(आवृतवीजी) की आकारिकी।</p> <p>1.3 पत्तियों के प्रकार, पुष्पक्रम, पुष्प और फल।</p> <p>1.4 पादप कोशिका और कोशिकांग संरचना- प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाएं। कोशिका विभाजन के प्रकार।</p> <p>1.5 सूक्ष्मदर्शी संरचना और प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का कार्य (आवर्धन और विभेदन क्षमता )</p> <p>1.6 विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मदर्शी: ब्राइट क्षेत्रसूक्ष्मदर्शी,फेस कोनट्रास्ट, SEM और TEM।</p>	12
II	<p>1शैवाल</p> <p>1.1सामान्य विशेषताएं</p> <p>1.2 संगठन और प्रजनन</p> <p>1.3 जीवन-चक्र के प्रकार,</p> <p>1.4प्रकृति में शैवाल की भूमिका और आर्थिक महत्व।</p> <p>2ब्रायोफाइट्स</p> <p>2.1 सामान्य विशेषताएं</p> <p>2.2पारिस्थितिकी, थैलस संगठन, आकारिकी, आंतरिक और बाहरी संरचना और किसी भी एक ब्रायोफाइट्स का प्रजनन।</p> <p>2.3 ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व</p>	12
III	<p>1. टेरिडोफाइट्स</p> <p>1.1 सामान्य विशेषताएँऔरआकारिकी।</p> <p>1.2 रम्भ-तन्त्रसंगठन और प्रजनन।</p> <p>1.3 विपरीताणुता और वीज स्वभाव।</p> <p>1.4 आर्थिक महत्व।</p> <p>2. अनावृतवीजी</p> <p>2.1 सामान्य विवरण औरवितरण।</p> <p>2.2 आर्थिक महत्व।</p> <p>3.जीवाण्मीय वनस्पतिविज्ञान (पैलियोबोटनी)</p> <p>3.1भारतीय योगदान।</p> <p>3.2 जीवाण्मों का संक्षिप्त ज्ञानऔर भूवैज्ञानिक समय सारणी</p>	12

Dk-w-shah

IV	<p>1. कवक</p> <p>1.1 सामान्य विशेषताएँ</p> <p>1.2 कोशिका भित्ति की संरचना और पोषणका तरीका</p> <p>1.3 प्रजनन के प्रकार</p> <p>1.4 आर्थिक महत्व।</p> <p>1.5 पैरासेक्सुअलिटी, कवकमूल</p> <p>2. लाइकेन और उनके महत्व का संक्षिप्त ज्ञान।</p>	12
V	<p>1. सूक्ष्मजीव</p> <p>1.1 संक्षिप्त रूपरेखा</p> <p>1.2 सूक्ष्मजीवों के प्रकार, आर्किबैक्टीरिया यूवैक्टरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइस्टीस और विषाणु</p> <p>1.3 लाभकारी और हानिकारक भूमिकाएँ।</p>	12
सार बिंदु (कीवर्ड)/टैग: वनस्पति विज्ञानका इतिहास, जीवाश्म वनस्पतिविज्ञान, प्रोकैरियोट्स, यूकेरियोट्स, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृतवीजी, कवक, माइकोराइजा, लाइकेन, बैक्टीरिया, विषाणु		
<p style="text-align: center;">भाग स-</p> <p style="text-align: center;">अनुशंसित अध्ययन संसाधन</p> <p style="text-align: center;">पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन</p> <p>अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ओलाडेल ओगनसेटन, Microbial Diversity: Form and Function in Prokaryotes, विले ब्लैकवेल, अमरीका, 2008.</li> <li>पेल्जार, एम. जे. एट अल., माइक्रोबायोलॉजी, टाटा मैक्ग्रॉ-हिल कंपनी, नई दिल्ली, 5th edn., 2001.</li> <li>प्रेसकॉट, एल हार्ले, जे और क्लीन, डी, माइक्रोबायोलॉजी, टाटा मैक्ग्रॉ-हिल कंपनी, नई दिल्ली, 6th edn., 2005.</li> <li>फ्रिट्सचार्फ.ई., The Structure &amp; Reproduction of Algae, Vol. I &amp; Vol. II, कैंट्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैंट्रिज, यूके, 1945.</li> <li>स्मिथ, जी. एम., Cryptogamic Botany, Vol. I: Algae, Fungi, &amp; Lichens, मैक्ग्रॉ-हिल</li> </ol>		


  
 Dr. K. N. SHAH

बुककंपनी, न्यूयार्क, 1955.

6. इयान मॉरिस, An Introduction to the Algae, हचिनसनविश्वविद्यालयपुस्तकालय, लंदन, 1967.
7. एलेक्सोपोलोस, सी.जे., मीम्स, सी. डब्ल्यू. और ब्लैकवेल, एम., Introductory Mycology, जॉन विले एंड संस, अमरीका, 1996.
8. वेबस्टर, जे., Introduction to Fungi, कैंट्रिज विश्वविद्यालय प्रेस, यू. के., 2nd edn., 1999.
9. कैवर्स एफ., The inter-relationships of the Bryophyte, न्यू फाइटोलॉजिस्ट, भारतीय पुनर्मुद्रण, Vol.10, issue 1-2, p. 1-21, 1911.
10. परिहार, एन.एस., An Introduction to Embryophyta: Bryophyte, Vol.I, सेंट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, 1965.
11. वाटसन, ई.वी., British Mosses and Liverworts, कैंट्रिज विश्वविद्यालय प्रेस, यू. के., 1968.
12. ईम्स, ए.जे., Morphology of Vascular Plants: Lower Groups, मैकग्रॉ-हिल बुक कंपनी, न्यूयार्क, 1936.
13. परिहार, एन.एस., An Introduction to Embryophyta: Pteridophyte, Vol.II, सेंट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, 1965.
14. स्पोर्न, के. आर., The Morphology of Pteridophytes: The Structure of Ferns and Allied Plants, हचिनसन विश्वविद्यालय पुस्तकालय, लंदन, 1970.
15. विएरहोस्ट, डी.डब्ल्यू., Morphology of Vascular Plants, मैकमिलन कंपनी, न्यूयॉर्क और कोलियर-मैकमिलन लिमिटेड, लंदन, 1971.
16. कोल्टर, जे.एम. और सी. जे. चेम्वरलिन, Morphology of Gymnosperms, सेंट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, 1964.
17. स्पोर्न, के. आर., The Morphology of Gymnosperms: The Structure and Evolution of Primitive seed Plants, हचिनसन विश्वविद्यालय पुस्तकालय, लंदन, 1971.
18. दत्ता, एस.सी., An introduction to Gymnosperms, कल्याणी प्रकाशक, नई दिल्ली, 1984.
19. शर्मा, ओ.पी. और शिवानी दीक्षित, Gymnosperms, प्रगति प्रकाशन, मेरठ, 2015.
20. वशिष्ठ, पी.सी., Botany for Degree students: Gymnosperms, revised edn., एस. चांद एंड कॉ. लिमिटेड, नई दिल्ली, 2018.
21. भटनागर, एस. पी. और आलोक मोइत्रा, Gymnosperms, न्यूएज इंटरनेशनल (पी.)लिमिटेड, नई दिल्ली, 2000.

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:

भाग द -अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:

*(Dr. K.N. SHAH)*

अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:

अधिकतम अंक: 100

सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 25 विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक: 75

आंतरिक मूल्यांकन:	क्लास टेस्ट	15
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	असाइनमेंट/प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	10
		कुल अंक : 25
आकलन :	अनुभाग (अ): तीन अति लघु प्रश्न (प्रत्येक 50 शब्द)	$03 \times 03 = 09$
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	अनुभाग (ब): चार लघु प्रश्न (प्रत्येक 200 शब्द)	$04 \times 09 = 36$
समय- 02.00 घंटे	अनुभाग (स): दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 500 शब्द)	$02 \times 15 = 30$
		कुल अंक = 75

कोई टिप्पणी/सुझाव:

D W C  
(Dr. K. W. SHAH)

### Part A Introduction


Program: Certificate		Class: BSc-I	Year:2021	Session:2022-23
Subject: Botany				
1	Course Code	S1-BOTA2T		
2	Course Title	Basic Botany (paper II)		
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/.....)	Core Course		
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject botany in class/12th/ certificate/diploma.		
5	Course Learning outcomes (CLO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This course will help the student to understand the diversity of plants and evolutionary process in plant kingdoms.</li> <li>• It gives an accounts of plant adaptations from aquatic condition to colonize terrestrial habitat.</li> <li>• The changes in morphological, anatomical and reproductive structures that propel plant evolution can be investigated.</li> <li>• The economic importance and significance of plants in nature will be understood.</li> <li>• They will be acquainted with locally prevalent microbial diseases of plants and humans</li> </ul>		
6	Credit Value	4 Credits		
7	Total Marks	Max. Marks: 25+75	Min. Passing Marks:33	

### Part B- Content of the Course

Total No. of Lectures- 60 Tutorials- 0 Practical =0 ( theory 4 hours per week):

L-T-P:

Unit	Topics	No. of Lectures
I	1.1 History of Botany and Indian Contributions. 1.2 Morphological Characteristics of lower and higher plants(Angiosperms). 1.3 Types of leaves, Inflorescence, Flowers and Fruits. 1.4 Structure of Plant cell and cell organelles, Prokaryotic and Eukaryotic Cells, types of Cell division. 1.5 Microscope structure and function of light microscope (magnification and resolving power), 1.6 Various types of Microscopes: Bright field, Phase Contrast, SEM and TEM.	12
II	1. Algae 1.1 General characteristics 1.2 Range of thallus organization, reproduction. 1.3 Types of life-cycles in algae 1.4 Role of algae in nature and its economic importance.	12

  
 Dr. K.W. SHAH

	<b>2Bryophytes :</b> 2.1General characteristics, Ecology. 2.2Range of thallus organization, morphology, anatomy(internal and external features) and reproduction of any one Bryophyte. 2.3Economic importance of Bryophytes	
III	<b>1Pteridophytes</b> 1.1General characteristics and morphology. 1.2Stelar organization and reproduction. 1.3Heterospory and seed habit. 1.4Economical importance <b>2.Gymnosperms</b> 2.1General description and their distribution. 2.2Economical importance of Gymnosperms. <b>3.Paleobotany</b> 3.1Indian contribution in Paleobotany. 3.2Brief knowledge of Fossils and Geological time scale.	12
IV	<b>1Fungi</b> 1.1 General characteristics and cell wall composition. 1.2 Mode of nutrition 1.3 Types of reproduction 1.4 Economic importance 1.5Parasexuality and Mycorrhiza <b>2.Lichens:</b> Brief knowledge and their significance.	12
V	<b>1Microbes</b> 1.1Brief outline of various types of Microbes 1.2Archaebacteria, Eubacteria, Cyanobacteria, Mycoplasma, Actinomycetes and Virus. 1.3 Beneficial and harmful roles.	12

**Keywords/Tags:** History of Botany, Paleobotany, Prokaryotes, Eukaryotes, Algae, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms, Fungi , Mycorrhiza, Lichens, Bacteria, Virus

#### Part C-Learning Resources

##### Text Books, Reference Books, Other resources

##### Suggested Readings:

1. Oladele Ogunseitan, Microbial Diversity: Form and Function in Prokaryotes, Wiley Blackwell,2008.
2. Pelczar, M.J et al., Microbiology, Tata McGraw-Hill Co, New Delhi,5th edition, 2001.
3. Presscott, L. Harley, J. and Klein, D., Microbiology, Tata McGraw- Hill Co. New Delhi,6th edn., 2005.
4. Fritsch F.E., The Structure & Reproduction of Algae, Vol. I & Vol. II., Cambridge University

*J. N. C. H.  
(Dr. K. W. SHAIKH)  
29/15/21*

- Press, Cambridge, U.K. 1945.
5. Smith, G.M., Cryptogamic Botany, Vol. I: Algae, Fungi, & Lichens, McGraw-Hill Book Co., New York, 1955.
  6. Ian Morris, An Introduction to the Algae, Hutchinson, London, 1967.
  7. Alexopoulos, C.J., Mims, C.W. and Blackwell, M., Introductory Mycology, John Wiley and Sons, 1996.
  8. Webster, J., Introduction to Fungi, Cambridge University Press 2nd edn., 1999.
  9. Cavers F., The inter-relationships of the Bryophyta, The New Phytologist, Indian Reprint, Vol.10, issue 1-2, p. 1-21, 1911.
  10. Parihar, N.S., An Introduction to Embryophyta: Bryophyte, Vol.I, Central Book Depot, Allahabad, 1965.
  11. Watson, E.V., British Mosses and Liverworts, Cambridge University Press, U.K, 1968.
  12. Eames, A.J., Morphology of Vascular Plants: Lower Groups, McGraw Hill, N.Y., 1936.
  13. Parihar, N.S., An Introduction to Embryophyta: Pteridophyte, Vol.II, Central Book Depot, Allahabad, 1965.
  14. Sporne, K.R., The Morphology of Pteridophytes: The Structure of Ferns and Allied Plants, Hutchinson University Library, London, 1970.
  15. Bierhorst, D.W., Morphology of Vascular Plants, The MacMillan Co., N.Y. and Collier-MacMillan Ltd., London, 1971.
  16. Coulter, J.M. and C.J. Chamberlain, Morphology of Gymnosperms, Central Book Depot, Allahabad, 1964.
  17. Sporne, K.R., The Morphology of Gymnosperms: The Structure and Evolution of Primitive seed Plants, Hutchinson University Library, London, 1971.
  18. Dutta, S.C., An introduction to Gymnosperms, Kalyani Publishers, New Delhi, 1984.
  19. Sharma, O.P. and Shivani Dixit, Gymnosperms, Pragati Prakashan, Meerut, 2015.
  20. Vasishtha, P.C., Botany for Degree students: Gymnosperms, revised edn., S. Chand and Comp. Ltd., N. Delhi, 2018.
  21. Bhatnagar, S.P. and Alok Moitra, Gymnosperms, New age International (P.) Ltd., New Delhi, 2000.

#### Suggested equivalent online courses:

#### Part D-Assessment and Evaluation

##### Suggested Continuous Evaluation Methods:

Maximum Marks : 100

Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 25marks University Exam (UE) 75 marks


<b>Internal Assessment :</b> Continuous Comprehensive Evaluation (CCE):25	Class Test Assignment/Presentation Total	15 10 <b>25</b>
<b>External Assessment :</b> University Exam Section: 75 Time : 02.00 Hours	Section(A) : Three Very Short Questions (50 Words Each) Section (B) : Four Short Questions (200 Words Each) Section (C) : Two Long Questions (500 Words Each)	03 x 03 = 09 04 x 09 = 36 02 x 15 = 30 Total <b>75</b>

Any remarks/ suggestions:

*J.W.C. 29/5/21  
(Dr. K. W. SHAH)*

## प्रायोगिक प्रश्नपत्र

भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: प्रमाणपत्र		कक्षा :प्रथम वर्ष	वर्ष::2022-23
विषय: वनस्पतिशास्त्र प्रायोगिक			
1	पाठ्यक्रम का कोड	S1-BOTAP	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	आधारभूत वनस्पतिशास्त्र (प्रश्न पत्र II)	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार :(कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/.....)	कोर्स कोर्स	
4	पूर्वपिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र ने विषय वनस्पति विज्ञान /जीव विज्ञान का अध्ययन कक्षा12वीं/ में किया हो।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलक्षियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>विद्यार्थी प्रयोगशाला में व्यावहारिक कार्य करना सीखेंगे</li> <li>निम्नपादप और उच्च पादप के विभिन्न समूहों के अन्तरिक और बाहरी संरचना की व्याख्या करना।</li> <li>विद्यार्थी सूक्ष्मजीवों के प्रमुख समूहों की पहचान करने में सक्षम होंगे।</li> </ul>	
6	क्रेडिट मान	2 क्रेडिट (प्रायोगिक)	
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 25+75	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक:33
भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
प्रायोगिक की कुल संख्या- 30 घंटे व्यूटोरियल -00- प्रायोगिक (प्रति सप्ताह 02 घंटे):			
L-T-P:			
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या	
1 से 5 तक	<ol style="list-style-type: none"> <li>विभिन्न प्रकार की पत्तियों, पुष्पक्रमों, पुष्प और फलों का अध्ययन।</li> <li>सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न भागों को समझना (सरल और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी)</li> <li>पादपकोशिकाओं का अध्ययन (जैसेप्याज की कोशिकाआदी)</li> <li>समसूत्रीविभाजन और अर्धसूत्रीविभाजन की स्थायी स्लाइडों का अध्ययन।</li> <li>इंटरनेट, यू-ट्यूब से पादपकोशिकाओं और कोशिकाओं के इलेक्ट्रॉन</li> </ol>	30	


  
 (Dr. K.N. SHAH)

	<p>माइक्रोग्राफ का अध्ययन।</p> <p>6. स्थाईस्लाइड और आस-पास के क्षेत्रों से पानी के अस्थायी माउंट से विभिन्न शैवाल की पहचान जैसे, नोस्टॉक, ओसीलेटोरिया, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा, ऊडोगो नियम, कारा, और नमूने जैसे समुद्री शैवाल केपिक्टोग्राफ और एक्टोकार्पस, सरगासम, पॉलीसाईफोनिया का अध्ययन।</p> <p>7. कुछ ब्रायोफाइट्सका अध्ययन और पहचान जैसे- रिक्सिया, मार्केन्शिया, ऐंथोसिरोस, फ्यूनेरिया और फील्ड अध्ययन।</p> <p>8. कुछ जीवाश्मों का अध्ययन (प्रदर्शों और स्लाइड)</p> <p>9. कुछ टेरिडोफाइट का अध्ययन जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्निसेटम, मार्सेलिया और किसी भी एक फर्न का अध्ययन।</p> <p>10. टेरिडोफाइट्स और जिम्मोस्पर्म: तना, जड़ और पत्तियों का अनुप्रस्थ काट का अध्ययन।</p> <p>11. टेरिडोफाइट्स और जिम्मोस्पर्म के शंकु का अध्ययन।</p> <p>12. कवकीय संरचनाओं का अध्ययन और अस्थायी स्लाइड का अध्ययन: म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस, वीस्ट, पेनिसिलियम, अल्टरनेरिया, अल्बूगो, हेलिमेंथोस्पोरियम</p> <p>13. पोपक पर पकसीनिया की स्थायी स्लाइड का अध्ययन।</p> <p>14. विभिन्न कवकीय पौधों के रोगों का अध्ययन।</p> <p>15. पौधों पर विषाणु, जीवाणु के लक्षणों का अवलोकन।</p> <p>16. ग्राम अभिरंजन तकनीक।</p>	
--	---	--


सार बिंदु (कीवर्ड)/टैग: सूक्ष्मदर्शी, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्मोस्पर्म कवक

भाग स-अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:

- वेंद्रे अशोक और अशोक कुमार, A Textbook of Practical Botany, vol. 1, रस्तोगी प्रकाशन, मेरठ, 1984
- पांडे वी. पी. Modern Practical Botany, , vol. 1, एस. चांद एंड कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली, 17वींedn., 1999
- सिंह म. प., चौधरी एस. वी. और साहू एच. वी., A Textbook of Practical Botany, दया प्रकाशन हाउस,


  
 Dr. K.W. Shah

नईदिल्ली, 2005.

4. शहाजाद अकिल मोहम्मद, Practical Botanyशांति प्रकाशन, ग्वालियर, 2016
5. एलिजाबेथ मार्गरिट और एंजेला जी., Practical manual of Botany, vol.1, न्यूएज प्रकाशन लिमिटेड, दिल्ली, 2007.

2. अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक----

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:-=====

भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:

अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:

आतंरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद /प्रश्नोत्तरी	10	प्रायोगिक मौखिकी (वायवा)	15
उपस्थिति	5	प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल	10
असाइनमेंट (चार्ट/मॉडल/सेमिनार/ग्रामीण सेवा/प्रौद्योगिकी प्रसार/भ्रमण(कस्कर्शन) की रिपोर्ट/सर्वेक्षण/प्रयोगशाला भ्रमण (लैब विजिट)/ओद्योगिक यात्रा	10	टेबल वर्क/प्रयोग	50
कुल अंक	25		75

कोई टिप्पणी/सुझाव: शिक्षक अपनी सुविधा एवं उपलब्धता के अनुसार इस प्रारूप अनुसार प्रायोगिक कार्य सम्पन्न करें

*(Dr. K. W. SHAH)*


<b>Part A Introduction</b>			
Program: Certificate		Class: 1 <sup>st</sup> year	Year: 2021
Subject : Botany Practical			
1	Course Code	S1-BOTA21P	
2	Course Title	Basic Botany Practical (Paper-II)	
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/....)	Core Course	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had the subject of Biology/ Life science/Agriculture in class 12th.	
5	Course Learning outcomes (CLO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Students will learn to carry out practical work in the laboratory,</li> <li>Interpreting plant morphology and anatomy of various groups of lower and higher plants.</li> <li>Students will be able to identify the major groups of microorganisms.</li> </ul>	
6	Credit Value	2 Credits	
7	Total Marks	Max. Marks: 25+75	Min. Passing Marks:33

<b>Part B- Content of the Course</b>		
OTotal No. of Practical- 30 HoursTutorials- 00 -Practical ( 2 hours per week): L-T-P:  		

Unit	Topics	No. of Practical
I to V	<ol style="list-style-type: none"> <li>Study of various types of leaves , inflorescence, Flowers and fruits.</li> <li>Understanding various parts of Microscope(simple and compound microscope)</li> <li>Study of plant cells (e.g. Onion etc.)</li> <li>Study of permanent slides of Mitosis and meiosis</li> <li>Study of Electron Micrographs of Cell and organelles from Internet, You -Tube.</li> <li>Identification of various algae from specimens, slides and temporary mounts of water from nearby areas like, <i>Nostoc</i>, <i>Oscillatoria</i>, <i>Volvox</i>, <i>Spirogyra</i>, <i>Oedogonium</i>, <i>Chara</i>, and specimens and pictographs of marine algae like <i>Ectocarpus</i>, <i>Sargassum</i>, <i>Polysiphonia</i>.</li> <li>Study and identification of some Bryophytes like <i>Riccia</i>, <i>Marchantia</i>, <i>Anthoceros</i>, <i>Funaria</i> and Field visit.</li> <li>Study of some fossils (specimens and slides )</li> <li>Study of some Pteridophytes like <i>Lycopodium</i>, <i>Sellaginella</i>, <i>Equisetum</i>, <i>Marselia</i> and study of any one fern</li> </ol>	30

  
 Dr. K.W. Shah  
 29/5/21

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Section cutting of Pteridophytes and Gymnosperms:<br/>Stem, root and leaves</li> <li>11. Specimen study of Pteridophytes and Gymnosperms<br/>Cones</li> <li>12. Study of fugal structures and preparation of temporary mounts of <i>Mucor</i>, <i>Rhizopus</i>, <i>Aspergillus</i>, <i>Yeast</i>, <i>Pencillium</i>, <i>Alternaria</i>, <i>Albugo</i>, <i>Helminthosporium</i>.</li> <li>13. Permanent slides of <i>Puccinia</i> on host.</li> <li>14. Study of various fungal plant diseases</li> <li>15. Observation of symptoms of virus and bacteria on plants.</li> <li>16. Gram staining techniques</li> </ol> |  |
|--|---|--|

**Keywords/Tags:** Microscope, Algae, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm, Fungi

### **Part C-Learning Resources**


Text Books, Reference Books, Other resources

#### **Suggested Readings:**

1. Bendre Ashok and Ashok Kumar , A Textbook of Practical Botany, , vol. 1, Rastogi Pub., Meerut, 1984.
2. Pandey B.PModern Practical Botany,,, vol. 1, S. Chand and Co. Ltd., N. Delhi, 17th edn., 1999.
3. Singh M.P., Chaudhary S.B. and Sahu H. BA Textbook of Practical Botany,Daya Pub. House, N. Delhi, 2005.
4. Shahezad, Akil Mohd., Practical Botany, Shanti Prakashan, Gwalior, 2016.
5. Elizabeth Margaret and Angela GPractical manual of Botany, vol.1, New Age (Pub.) Ltd., Delhi, 2007.

#### **Suggestive digital platforms web links --**

**Suggested equivalent online courses: ---**



  
 Dr. K.W. Shah

### **Part D-Assessment and Evaluation**

**Suggested Continuous Evaluation Methods:**

Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction /Quiz	10	Viva Voce on Practical	15
Attendance	5	Practical Record File	10
Assignments (Charts/ Model Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of / Lab Visits/ Survey / Industrial visit)	10	Table work / Experiments	50
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>		<b>75</b>

**Any remarks/ suggestions:** Practical may be adjusted accordingly by the teachers.

  
 Dr. K. N. Shah  
 29/5/21

<b>Part A Introduction</b>			
Program:Diploma	Class': BSc	Year: Second	Session:2022-23
<b>Subject: Botany</b>			
1	Course Code	S2-BOTA1T	
2	Course Title	Plant Anatomy and Embryology	
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/.....)	Major -1	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have had subject botany in B.Sc. I year/ certificate course.	
5	Course Learning outcomes (CLO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Students will learn the internal structure of plants. It will enhance the basic understanding of organization of plant body by cells and tissues.</li> <li>Students will understand the dynamic mechanism of plant pollination, fertilization and development.</li> <li>They will have hands on training on section cutting, preparation of slides, study of pollen and ovules.</li> </ul>	
6	Credit Value	4 Credits	
7	Total Marks	Max. Marks: 30+70	Min. Passing Marks:33
<b>Part B- Content of the Course</b>			
Total No. of Lectures- 60 Tutorials- 0 Practical =0 ( theory 2 hours per week):			
<b>L-T-P:</b>			
Unit	Topics	No. of Lectures	
I	<b>Meristematic and permanent tissues</b> 1.1 Types of meristems, 1.2 Organization of Root and shoot apex 1.3 Simple and complex tissues. 1.4 Special type of tissues. 1.5 Structure of dicot and monocot root, stem and leaf Kranz anatomy. 1.6 Pits and plasmodesmata; 1.7 Wall ingrowths and transfer cells. 1.8 Hydathodes, cavities, lithocysts and laticifers	12	
II	<b>Secondary Growth :</b> 1.1 Vascular cambium – structure, function and seasonal	12	

	<p>activity.</p> <p>1.2 Secondary growth in root and stem,      1.3 Wood (heartwood and sapwood).      1.4 Anomalous structures.      1.5 Adaptive and protective systems : Epidermis, cuticle, stomata;      1.6 General account of adaptations in xerophytes and hydrophytes.      1.7 Dendrochronology.</p>	
III	<p><b>Embryology :</b></p> <p>1.1 History and Importance of embryology,      1.2 Structure of flower, anther and pollen,      1.3 Micro-sporogenesis and Mega-sporogenesis;      1.4 Structure and types of ovules;      1.5 Types of embryo sacs,      1.6 organization and ultra structure of mature embryo sac.</p>	12
IV	<p><b>Pollination and fertilization</b></p> <p>1.1 Types of Anthers and pollen,      1.2 Pollination mechanisms and adaptations;      1.3 Pollen pistil interaction,      1.4 Double fertilization;      1.5 Post fertilization changes,      1.6 Seed structure appendages and dispersal mechanisms.      1.7 Palynology and Scope ( a brief account)</p>	12
V	<p><b>Endosperm &amp; embryo</b></p> <p>1.1 Endosperm types, structure and functions;      1.2 Dicot and monocot embryos;      1.3 Embryo- endosperm relationship,      1.4 Nutrition of Embryo,      1.5 Unusual features in Embryo and Endosperm,      1.6 Apomixis and polyembryony, Definition, types and practical applications.      1.7 In- vitro fertilization</p>	12

**Keywords/Tags:** Meristematic and permanent tissues, plasmodesmata, Hydathodes, cavities, lithocysts, laticifers, **Secondary Growth**, Vascular cambium Wood, Xerophytes, hydrophytes, Dendrochronology, Embryology , Embryo-sac, Pollination, Fertilization, Embryo, Endosperm Apomixis ,polyembryony

### Part C-Learning Resources

#### Text Books, Reference Books, Other resources

#### Suggested Readings:

1. Bhojwani, S.S. & Bhatnagar, S.P. (2011). Embryology of Angiosperms. Vikas Publication House Pvt. Ltd. New Delhi. 5th edition.

2. Dickison, W.C. (2000). Integrative Plant Anatomy. Harcourt Academic Press, USA.
3. Fahn, A. (1974). Plant Anatomy. Pergmon Press, USA.
4. Mauseth, J.D. (1988). Plant Anatomy. The Benjammin/Cummings Publisher, USA.
5. Evert, R.F. (2006) Esau's Plant Anatomy: Meristems, Cells, and Tissues of the Plant Body: Their Structure, Function and Development. John Wiley and Sons, Inc.
6. Johri, B.M.(1984)Embryology of Angiosperms.Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
7. Maheshwari,P. Introduction of embryology of Angiospem, Tata magrohill publication com. (1971)
8. Pandey, B.P. plant anatomy S. Chand & company (1986)
9. Pandey S.N. and Chaddha A., Plant anatomy and embryological development Publishing house Pvt. Ltd.

**Suggested Weblinks:**

1. <https://www.davuniversity.org/images/files/study-material/EDU246%20BOTANY%202.pdf>
2. <https://gacbe.ac.in/pdf/ematerial/18BBO43C-U3.pdf>
3. <https://uou.ac.in/sites/default/files/slides/BSCBO-202.pdf>

**Suggested equivalent online courses:**-----

**Part-D : Assessment and Evaluation (Theory)**

**Suggested Continuous Evaluation Methods :**

Maximum Marks : **100**; CCE : **30**, University Exam (UE) : **70**

<b>Internal Assessment:</b> Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): 30	Class Test, Assignment/Presentation	<b>Total 30</b>
<b>External Assessment :</b> University Exam Section: <b>70</b>	<b>Section (A) : Objective Type Questions</b>	
Time : 03.00 Hours	<b>Section (B) : Short Questions</b>	
	<b>Section (C) : Long Questions</b>	
	<b>Total</b>	<b>70</b>

भाग अ - परिचय

कार्यक्रम: डिप्लोमा		कक्षा :B.Sc.	वर्ष : द्वितीय	सत्र:2022-23
विषय : वनस्पति शास्त्र				
1	पाठ्यक्रम का कोड		S2-BOTA1T	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक		पादप आंतरिकी एवं भूणीकी	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार :(कोर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/.....)			मेजर - 1
4	पूर्वपिक्षा (Pre-requisite) (यदि कोई हो)		इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, छात्र ने विज्ञान विषय अध्ययन कक्षा प्रथम वर्ष/ सर्टिफिकेट कोर्स में किया हो।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• विद्यार्थी पादप की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। वे पादप कोशिकाओं और ऊतकों के संगठन को समझेंगे</li> <li>• विद्यार्थी पादप परागण, निषेचन और भूषणविकास को समझेंगे</li> <li>• विद्यार्थी सेक्षन कटिंग, स्लाईड तैयार करने में दक्षता प्राप्त करेंगे तथा परागकण और अण्डाशय का अध्ययन करेंगे।</li> </ul>	
6	क्रेडिट मान			4
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 30+70		न्यूनतम उत्तीर्ण अंक:33

**भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु**

**व्याख्यान की कुल संख्या- 60 घण्टे छूटोरियल-0 प्रायोगिक 0 (प्रति सप्ताह 02 घंटे में): L-T-P:**

इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या
I	<b>विभज्योतक और स्थायी ऊतक</b> 1.1 विभज्योतक के प्रकार। 1.2 जड़ और प्ररोह शीर्ष का संगठन। 1.3 सरल, जटिल और विशेष प्रकार के ऊतक। 1.5 द्विवीजपत्री और एकवीजपत्री जड़, तना और पत्ती की संरचना 1.6 पिट्स और प्लास्मोडेसमाटा। 1.7 भित्ति अंतर्वृद्धि और स्थानांतरण कोशिकाएं। 1.8 जलरंध्र, गुहिकाये, लिथोसाइट्स और रबड़क्षीर।	12
II	<b>द्वितीयक वृद्धि, अनुकूलन और रक्षात्मक आवरण</b> 1.1 संवहनी पूल के प्रकार। 1.2 एधा- संरचना, कार्य और मौसमी गतिविधि। 1.3 जड़ और तने में द्वितीयक वृद्धि। 1.4 काष्ठ (अतः काष्ठ और रसदारु)। 1.5 अनुकूली और सुरक्षात्मक प्रणालियाँ: चर्म, उपचर्म, रंधा। 1.6 मरुदभिद और जलोदभिद अनुकूलन का सामान्य विवरण। 1.7 डेंड्रोक्रोनोलॉजी (वृक्ष कालअनुक्रमिकी)।	12
III	<b>भूषणविज्ञान :</b> 1.1 भूषणविज्ञान का इतिहास और महत्व। 1.2 पुष्प, पराग कोष और पराग की संरचना। 1.3 लघु बीजाणुजनन और गुरुबीजाणुजनन। 1.4 बीजाण्ड की संरचना और प्रकार। 1.5 भूषणकोषके प्रकार। 1.6 परिपक्व भूषणकोष का संगठन और संरचना। 1.7 भूषणविज्ञान में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान।	12
IV	<b>परागण और निषेचन</b> 1.1 परागकोश और पराग के प्रकार। 1.2 परागण तंत्र और अनुकूलन। 1.3 पराग -ल्लीकेसर परस्पर क्रिया। 1.4 द्विनिषेचनऔरत्रिसंयोजन। 1.5 निषेचनोपरांत परिवर्तन	12

	1.6 बीज संरचना उपांग और प्रकीर्णन। 1.7 परागकण विज्ञान और संभावनाएं का एक संक्षिप्त विवरण	
V	<b>भूणपोष और भूण</b> 1.1 भूणपोष के प्रकार, संरचना और कार्य। 1.2 एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री भूणविकास। 1.3 भूण- भूणपोष संबंध। 1.4 भूण का पोषण। 1.5 भूण और भूणपोष में असामान्य विशेषताएं। 1.6 असंगजनन और बहुभूणीता परिभाषा, प्रकार और व्यावहारिक अनुप्रयोग। 1.7 इन- विट्रो निषेचन	12
सार बिंदु (कीवर्ड)/टैग: विभज्योतक और स्थायी ऊतक, द्वितीयक वृद्धि, मरुद्विद, जलोद भिद, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, भूणविज्ञान, भूणकोष, परागण, निषेचन, भूण, भूणपोष, असंगजनन और बहुभूणीता		
भाग स-अनुशंसित अध्ययन संसाधन		
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन		
<b>अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:</b>  सुझाए गए रीडिंगः  1. भोजवानी, एस.एस. और भटनागर, एसपी.. एंजियोस्पर्म का भूणविज्ञान। विकास पब्लिकेशन हाउस प्रा. लिमिटेड नई दिल्ली। 5वां संस्करण (2011)।  2. डिकिसन, डब्ल्यू.सी. इंटीग्रेटिव प्लांट एनाटॉमी। हारकोर्ट एकेडमिक प्रेस, यूएसए (2000)।  3. फाहन, ए.. प्लांट एनाटॉमी। पेर्गमन प्रेस, यूएसए (1974)।  4. मौसेथ, जे.डी. प्लांट एनाटॉमी। द बेंजामिन/कमिंग्स पब्लिशर, यूएसए (1988)....  5. एर्ट, आर.एफ. एसाव्स प्लांट एनाटॉमी: मेरिस्टेम्स, सेल, एंड टिश्यूज ऑफ प्लांट बॉडी: देयर संरचना, कार्य और विकास। जॉन विले एंड संस, इंक (2006)।  6. जौहरी, बी.एम. एंजियोस्पर्म का भूणविज्ञान। स्प्रिंगर-वेरलाग, बर्लिन हीडलबर्ग। (1984)।		

7. महेश्वरी, पी. एंजियोस्पर्स के भूषणविज्ञान का एक परिचय, टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिशिंग कंपनी (1971)।

8. पांडे, बी.पी. प्लांट एनाटॉमी एस. चंद एंड कंपनी (1986)।

9. पांडे एस.एन. और चड्हा ए, प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड (2011)।

अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक

1. <https://www.davuniversity.org/images/files/study-material/EDU246%20BOTANY%202.pdf>
2. <https://gacbe.ac.in/pdf/ematerial/18BBO43C-U3.pdf>
3. <https://ouo.ac.in/sites/default/files/slm/BSCBO-202.pdf>

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:-

#### भाग द -अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:

अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:

अधिकतम अंक: 100

सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 30 विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक: 70

: आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने हेतु पृथक पृथक न्यूनतम प्राप्तांक आना अनिवार्य है।

आंतरिक मूल्यांकन:	क्लास टेस्ट असाइनमेंट/प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	कुल अंक :30
आकलन : विश्वविद्यालयीन परीक्षा: समय- 03.00 घंटे	अनुभाग (अ): वस्तुनिष्ठ प्रश्न अनुभाग (ब): लघु उत्तरीय प्रश्न अनुभाग (स): दीर्घ उत्तरीय प्रश्न	कुल अंक 70

Part A Introduction			
Program: Diploma		Class: B.Sc.	Year: Second
Subject: Botany			
1	Course Code	S2-BOTA1P	
2	Course Title	Plant Anatomy and Embryology, Practical	
3	Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/.....)	Major-1	
4	Pre-requisite (if any)	To study this course, a student must have the subject Botany, Life Science in first year/certificate	
5	Course Learning outcomes (CLO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Students will be able to recognize the different types of tissues system.</li> <li>Students will be acquainted with the internal structure of plant root, stem and leaf</li> <li>Students will learn the technique of section cutting and slide preparation</li> </ul>	
6	Credit Value	2 Credits	
7	Total Marks	Max. Marks: 30+70 =100	Min. Passing Marks:33
Part B- Content of the Course			
Total No. of Lectures- 00Tutorials-00 Practical-30 (2 hours per week):			
L-T-P:			
Unit	Topics	No. of Lectures	
I-V	1. Study of meristems through permanent slides and photographs. 2. Study of Tissues (parenchyma, collenchyma and sclerenchyma); Macerated xylary elements, Phloem (Permanent slides, photographs) 3. Study of Monocot stem : Maize ( <i>Zea mays</i> ); Dicot stem: sunflower ( <i>Helianthus</i> ); Secondary growth : <i>Helianthus</i> . 4. Study of Monocot root : Maize ( <i>Zea mays</i> ); Dicot stem: sunflower ( <i>Helianthus</i> ); Secondary growth : <i>Helianthus</i> 5. Study of Dicot and Monocot leaf 6. Study of anomalous structure in Achyranthes, Boerhaavia, Nyctanthes through section cutting. 7. Study of Xerophyte ( <i>Nerium</i> leaf) and Hydrophyte ( <i>Hydrilla</i> stem). Plants. 8. Study of anther (young and mature), tapetum (amoeboid and secretory) through Permanent slides/pictures 9. Study of female gametophyte <i>Polygonum</i> (monosporic) type of embryo sac development through permanent slides/photographs. 10. Study of mature egg apparatus through slides/photographs 11. Demonstration of different types of Pollination and seed dispersal.	30	

	<p>12. Study of percentage germination of pollen grains in a given medium.</p> <p>13. Demonstration of pollen germination,</p> <p>14. Types of ovules in plants and placentation through temporary slides/photographs/permanent slide .</p> <p><b>*Section cutting, study of pollen grains and stigma through locally available plants .</b></p>	
--	--	--

**Keywords/Tags:**meristems, tissues, Monocot and Dicot, Root ,Stem ,Leaf, Anther, Female Gametophyte, egg –Apparatus, Pollination ,Seed Dispersal, ovules ,Placentation

#### **Part C-Learning Resources**

**Text Books, Reference Books, Other resources**

**Suggested Readings:**

1. Johri B.M Experimental Embryology of Vascular Plants , Springer –Verlag Berlin Heidelberg New York (1982)

**Suggestive digital platforms web links-----**

**Suggested equivalent online courses:-----**

#### **Part D-Assessment and Evaluation**

**Suggested Continuous Evaluation Methods:** It is compulsory to get minimum passing marks in Internal and External Assessment separately.

<b>Internal Assessment</b>	<b>Marks</b>	<b>External Assessment</b>	<b>Marks</b>
<b>Class Interaction /Quiz</b>		<b>Viva Voce on Practical</b>	
<b>Attendance</b>		<b>Practical Record File</b>	
<b>Assignments (Charts/ Model Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey / Industrial visit)</b>		<b>Table work / Experiments</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>		<b>70</b>

**Any remarks/ suggestions:**

## प्रायोगिक प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम हेतु

भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: डिप्लोमा		कक्षा : B.Sc.	वर्ष:: द्वितीय
विषय : वनस्पति शास्त्र			
1	पाठ्यक्रम का कोड		S2-BOTA1P
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक		पादप आंतरिकी एवं भूणकि प्रायोगिक
3	पाठ्यक्रम का प्रकार :(कोर कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल/.....)		मेजर - 1
4	पूर्वपिक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)		इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, विद्यार्थी ने विषय वनस्पति शास्त्र/जीव विज्ञान/ विज्ञान का अध्ययन कक्षा प्रथम वर्ष /प्रमाणपत्र में किया हो।
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलिखियाँ (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के ऊतकों को पहचानने में सक्षम होंगे</li> <li>• विद्यार्थी पादप जड़, तना और पत्ती की आंतरिक संरचना को समझेंगे</li> <li>• वे अनुप्रस्थ काट और स्लाइड तैयार करने का कौशल सिखेंगे</li> </ul>
6	क्रेडिट मान		02
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 30+70 =100	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33

### भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु

व्याख्यान की कुल संख्या-00- व्यूटोरियल-00- प्रायोगिक -30- (प्रति सप्ताह 02 घंटे में): L-T-P:

इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या
I-V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्थायी स्लाइड और प्रादर्श के माध्यम से विभाज्योतक ऊतकों का अध्ययन</li> <li>2. ऊतक पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लोरेन्काइमा; मैसरेटेड जाइलरी तत्व, फ्लोएम का स्थायी स्लाइड, और प्रादर्श द्वारा अध्ययन</li> <li>3. एकबीजपत्री तना मक्का (जिया मेस); द्विबीजपत्री तना: सूरजमुखी (हेलिएन्थस); द्वितीयक वृद्धि : हेलिएन्थस का अध्ययन।</li> </ol>	30

	<p>4 . एकबीजपत्री जड़ : मक्का (जिया मेस); द्विबीजपत्री जड़: सूरजमुखी (हेलिएन्थस); द्वितीयक वृद्धि : हेलिएन्थस का अध्ययन ।</p> <p>5 . एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री पत्ती का अध्ययन</p> <p>6 . अनुप्रस्थ काटके माध्यम से ( निकटेन्थस, बोरहाविया, एकाइरेन्थस) में असामान्य संरचना का अध्ययन।</p> <p>7 . मरुदूभिदों (नेरियम पत्ती), जलोद्धिदों (हाइड्रिला तना) में अनुकूलन का अध्ययन।</p> <p>8 . परागकोष की संरचना (तरुण और परिपक्व), टेपेटम (अमीबाइड और स्नावी) स्थायी स्लाइड द्वारा अध्ययन।</p> <p>9 . मादा युग्मकोद्धिदः पॉलीगोनम (मोनोस्पोरिक) प्रकार का भूषणपोष विकास स्थायी स्लाइड / प्रादर्श द्वारा अध्ययन।</p> <p>10 स्लाइड/फोटो के माध्यम से परिपक्वअंड समुच्चय का अध्ययन ।</p> <p>11 विभिन्न प्रकार के परागण और बीज वितरण का प्रदर्शन।</p> <p>12 . किसी दिए गए माध्यम में परागकणों के अंकुरण प्रतिशत का अध्ययन ।</p> <p>13 . पराग अंकुरण का प्रदर्शन</p> <p>14 अस्थायी स्लाइड/फोटो/स्थायी स्लाइड के माध्यम से पादप में बीजाण्ड के प्रकारऔर बीजाण्डविन्यास ।</p> <p>*स्थानीय रूप से उपलब्ध पादप के माध्यम से अनुप्रस्थ काट, परागकणों और वर्तिकाग्र का अध्ययन।</p>	
सार बिंदु (कीवर्ड)टैग: विभाज्योतक ऊतक, एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री, जड़, तना, पत्ती, हाइड्रिला तना, नेरियम पत्ती, परागकोश, मादा युग्मकोद्धिदः, अंड समुच्चय, परागण, बीज प्रकीर्णन, बीजांड, बीजांडन्या		
भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन		
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन		
अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:		
<p>1. जौहरी बी.एम. वैस्कुलर प्लांट्स का प्रायोगिक भूषणविज्ञान, स्प्रिंगर-वेरलाग बर्लिन हीडलबर्ग न्यूयॉर्क (1982)</p> <p>2. अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक:</p>		
अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:-		

**भाग द-अनुशंसित मूल्यांकन विधियां :**

**अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां :** आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने हेतु पृथक पृथक न्यूनतम प्राप्तांक आना अनिवार्य है।

आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद/ प्रश्नोत्तरी		प्रायोगिक मौखिकी (वायवा)	
उपस्थिति		प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल	
असाइनमेंट (चार्ट/मॉडल/सेमिनार/ग्रामीणसेवा/ प्रौद्योगिकीप्रसार/भ्रमण (एकस्कर्शन) कीरिपोर्ट/सर्वेक्षण/ प्रयोगशाला भ्रमण(लैबविजिट)/ औद्योगिक यात्रा		टेबलवर्क / प्रयोग	
कुल अंक	30		70
कोई टिप्पणी/सुझावःटेबल कार्य/ प्रयोग स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधन पर आधारित होंगे।			

<b>Part A Introduction</b>			
<b>Program: Diploma</b>	<b>Class: B.Sc.</b>	<b>Year:Second</b>	<b>Session:2022-23</b>
<b>Subject: Botany</b>			
<b>1</b>	<b>Course Code</b>	<b>S2-BOTA2T</b>	
<b>2</b>	<b>Course Title</b>	<b>Industrial Botany</b>	
<b>3</b>	<b>Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/.....)</b>	<b>Major-2 / Minor / Elective</b>	
<b>4</b>	<b>Pre-requisite (if any)</b>	The course is open to all who have completed I year certificate course in botany and other subjects	
<b>5</b>	<b>Course Learning outcomes (CLO)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This course will provide knowledge on plants and their parts used in various industries.</li> <li>• Students will get an idea to establish plant based natural product industry.</li> <li>• This course will make the students self-reliant.</li> </ul>	
<b>6</b>	<b>Credit Value</b>	<b>4 Credits</b>	
<b>7</b>	<b>Total Marks</b>	Max. Marks: 30+70	Min. Passing Marks:33
<b>Part B- Content of the Course</b>			
Total No. of Lectures- 60 Hours Tutorials- 0 Practical=0 (theory 2 hours per week):			
<b>L/T/P:</b>			
<b>Unit</b>	<b>Topics</b>	<b>No. of Lectures</b>	
<b>I</b>	<b>1 Plants in Timber Industry:</b> 1.1 Timber yielding trees of India and their products (Shisham, Sal, Teak, Deodar, Babool). 1.2 Bamboo and Cane Industry. 1.3 Kattha' Industry.	12	

<b>II</b>	<b>Leaf Based Industries-</b> 1.1 Utility products of leaf ( Palash, Banana). 1.2 Tea Industry (Production of various types of teas). 1.3 Leaf oil Industry (Mint, Camphor, Neem, Tulsi, Eucalyptus and Lemon grass). 1.4 Leaves used as spices ( Kasoori Methi, Pudina, Curry patta, Onion , Tejpatta ).	12
<b>III</b>	<b>Flower based Industries –</b> 1.1 Perfume products of Gulab, Jasmine, Henna, 1.2 Color industry (Food and Holi colors). 1.3 Raw material for Fermentation (Mahua).	12
<b>IV</b>	<b>Fruits and Seedsbased Industries-</b> 1.1 Jams, Jellies, Juice, Sauce and Pickles. 1.2 Poha and Daal Industry. 1.3 Edible Oil Industry (Groundnut, Soybean) 1.4 Starch, Glucose, and Dextrose Industry.	12
<b>V</b>	<b>other parts of plants based Industries-</b> 1.1 Sugar and Jaggery Industries. 1.2 Jute and Agarbatti stick making industry. 1.3 Project proposal preparation for establishment of an industry. 1.4 Grants and funding provider organizations of India.	12
<b>1.1 Keywords/Tags:</b> Keywords-Timber, Bamboo, Cane, Jute, Tea Industry, Oil yielding leaves, Perfumes, Leaf spices, Fermentation, Food colours, Edible oils, Food preservation techniques, Sugar industries.		
<b>Part C-Learning Resources</b>		
<b>Text Books, Reference Books, Other resources</b>		
<b>Suggested Readings:</b>		
1. Gerald E Wickens Economic Botany , principles and Practice, Kluver Academic Publishers(2001)		
2. Kocchar , S.L. Economic Botany , Cambridge University Press, UK(2016)		

3. Simpson, B.B. and Ogorzaly, M.C. Economic Botany, Tata Macgray Hill Publisher(1986)

**Suggested online material:**

1. <https://krishi.icar.gov.in/jspui/bitstream/123456789/19815/1/Timber.pdf>
2. <file:///C:/Users/CSP/Downloads/7B.pdf>
3. [https://swsu.ru/sbornik-statey/pdf/11\\_chapter%202.pdf](https://swsu.ru/sbornik-statey/pdf/11_chapter%202.pdf)

**Suggested equivalent online courses:**-----

**Part-D : Assessment and Evaluation (Theory)**

**Suggested Continuous Evaluation Methods :**

Maximum Marks : **100**; CCE : **30**, University Exam (UE) : **70**

<b>Internal Assessment:</b> Continuous Comprehensive Evaluation (CCE): 30	Class Test, Assignment/Presentation	<b>Total 30</b>
<b>External Assessment :</b> University Exam Section: <b>70</b>	<b>Section (A) : Objective Type Questions</b>	
Time : 03.00 Hours	<b>Section (B) : Short Questions</b>	
	<b>Section (C) : Long Questions</b>	
	<b>Total</b>	<b>70</b>

Note: Field Visit/project report in any specific topic can be prepared by the Students.

## सैद्धांतिक प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम

भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम :डिप्लोमा	कक्षा :द्वितीय वर्ष	वर्ष::2022	सत्र:2022-23
विषय:वनस्पति शास्त्र			
1	पाठ्यक्रम का कोड		
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक		
3	पाठ्यक्रम का प्रकार :)कोर्स/इलेक्टिव/जेनेरिक इलेक्टिव/वोकेशनल(...../		
4	पूर्वपेक्षा (Prerequisite) (यदि कोई हो)		
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलक्षियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) CLO)		
6	क्रेडिट मान		
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: $30+70 = 100$	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33

### भाग ब -पाठ्यक्रम की विषयवस्तु

व्याख्यान की कुल संख्या- 60 घंटे छूटोरियल-0 प्रायोगिक 0 घंटा ) 04 घंटा प्रतिसप्ताह : L-T-P:

इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या
I	इमारती लकड़ी उद्योग में पादप  1.1 भारत के इमारती लकड़ी उत्पादक वृक्ष एवं उनके उत्पाद (शीशम, साल, सागौन, देवदार, बबूल,)। 1.2 बांस और बेंत उद्योग। 1.3 कत्था.उद्योग	12
II	पत्ती आधारित उद्योग	12

	<p>1.1 पत्तीयों के उपयोगी उत्पाद (पलाश, केला)।</p> <p>1.2 चाय उद्योग( विभिन्न प्रकार की चाय का उत्पादन)</p> <p>1.3 पत्तीयों से प्राप्त तेल उद्योग (पुदीना, कपूर, नीम, तुलसी, नीलगिरी, और लेमन ग्रास)।</p> <p>1.4 मसाले के रूप में उपयोग की जाने वाली पत्तियां (कसूरी मेथी, पुदीना, करी पत्ता, प्याज, और तेजपत्ता)।</p>	
III	<p><b>फूल आधारित उद्योग</b></p> <p>1.1 गुलाब, चमेली, और मेंहदी के इत्र उत्पाद।</p> <p>1.2 रंग उद्योग (खाद्य और होली के रंग)।</p> <p>1.3 किणवन के लिए कच्चा माल (महुआ)।</p>	12
IV	<p><b>फल और बीज आधारित उद्योग-</b></p> <p>1.1 जैम, जेली, जूस, सॉस, अचार,</p> <p>1.2 पोहा और दाल उद्योग।</p> <p>1.3 खाद्य तेल उद्योग (मूंगफली, और सोयाबीन)।</p> <p>1.3 स्टार्च, ग्लूकोज और डेक्सट्रोज उद्योग।</p>	12
V	<p><b>पौधों के अन्य भाग आधारित उद्योग</b></p> <p>1.1 चीनी और गुड़ उद्योग।</p> <p>1.2 जूट और अगरबत्ती बनाने का उद्योग</p> <p>1.3 उद्योग स्थापित करने हेतु परियोजना प्रस्ताव बनाना.</p> <p>1.4 भारत के अनुदान और वित्तपोषण प्रदाता संगठन</p>	12
<p><b>सार बिंदु (कीवर्ड)/टैग::</b> इमारतीलकड़ी, बांस, बेंत, जूट, चायउद्योग, तेलदेनेवालीपत्तियां, इत्र, मसालेवालीपत्तियां, किणवन, खाद्यरंग, खाद्यतेल, खाद्य प्रसन्नकरण तकनीक . चीनी उद्योग ,</p>		
<p><b>भाग स-अनुशंसित अध्ययन संसाधन</b></p>		
<p><b>पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन</b></p>		
<p><b>अनुशंसित सहायक पुस्तकें /ग्रन्थ/अन्य पाठ्य संसाधन/पाठ्य सामग्री:</b></p>		
<p>सुझाए गए रीडिंग:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. गेराल्ड ईविकन्स, आर्थिक वनस्पति सिद्धांत और प्रैक्टिस, क्लुबर एकेडमिक पब्लिशर्स) 2001)</li> <li>2. कोचर, एस.एल .आर्थिक वनस्पतिविज्ञान, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस, यूके) 2016)</li> <li>3. सिम्पसन, बी.बी .और ओगोर्जली, एम.सी .आर्थिक वनस्पतिविज्ञान, टाटा मैक्सेहिल प्रकाशक) 1986)</li> </ol>		

**अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब लिंक:**

1. <https://krishi.icar.gov.in/jspui/bitstream/123456789/19815/1/Timber.pdf>
2. <file:///C:/Users/CSP/Downloads/7B.pdf>
3. [https://swsu.ru/sbornik-statey/pdf/11\\_chapter%202.pdf](https://swsu.ru/sbornik-statey/pdf/11_chapter%202.pdf)

**अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:-**

**भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:**

**अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:**

अधिकतम अंक: 100

सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 30 विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक: 70

आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने हेतु पृथक पृथक न्यूनतम प्राप्तांक आना अनिवार्य है।

आंतरिक मूल्यांकन:	क्लास टेस्ट	कुल अंक :30
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	असाइनमेंट/प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	
आकलन :	अनुभाग (अ): वस्तुनिष्ठ प्रश्न	कुल अंक 70
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	अनुभाग (ब): लघु उत्तरीय प्रश्न	
समय- 03.00 घंटे	अनुभाग (स): दीर्घ उत्तरीय प्रश्न	

**नोट:** छात्रों द्वारा किसी विशिष्ट विषय में फील्ड विजिट/ प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा सकती है

## Syllabus of Practical Paper

<b>Part A Introduction</b>			
<b>Program: Diploma</b>		<b>Class: II year</b>	<b>Year: 2022</b>
<b>Subject: Botany</b>			
<b>1</b>	<b>Course Code</b>	<b>S2BOTA2P</b>	
<b>2</b>	<b>Course Title</b>	<b>Industrial Botany / Practical</b>	
<b>3</b>	<b>Course Type (Core Course/Elective/Generic Elective/Vocational/....)</b>	<b>Major-2 / Minor / Elective</b>	
<b>4</b>	<b>Pre-requisite (if any)</b>	To study this course, a student must have the subject Botany, Biology, Life Science in First Year/Certificate.	
<b>5</b>	<b>Course Learning outcomes (CLO)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• students will be able to recognize different parts of plants used in plant-based industries</li> <li>• This course will provide practical knowledge to establish small or large scale plant based industries</li> </ul>	
<b>6</b>	<b>Credit Value</b>	2 Credits	
<b>7</b>	<b>Total Marks</b>	Max. Marks: 30+70 =100	Min. Passing Marks:33
<b>Part B- Content of the Course</b>			
<b>Total No. of Lectures-00 Tutorials-00 Practical 30 Hours (02 hours per week):</b> <b>L-T-P:</b>			
<b>Unit</b>	<b>Topics</b>		
I-V	1. Preparation of Holi color's from locally available flowers 2. Preparation of food colors from locally available flowers 3. Perfume extraction process by distillation method 4. Preparation and preservation techniques of jams, jellies and prickles. 5. Extraction and preservation of juices (lemon and orange etc.) 6. Preparation of different types of teas (Tulsi tea, lemon tea etc.) 7. Identification, collection and extraction of oil yielding leaves. 8. Identification, collection and specimen preparation of leafy spices. 9. Hands on training for preparation of "Douna and Pattal" using Palash and Banana leaves. 10. Visit to any plant based industry. 11. Herbarium preparation of different parts of plants used in various industries <b>*Practicals can be performed according to availability</b>	30	
<b>Keywords/Tags:</b> Holi, food colors, Perfume extraction, jams, jellies and prickles , juices preservation techniques, oil yielding leaves, leafy spices, Palash and Banana leaves			

<b>Part C-Learning Resources</b>
<b>Text Books, Reference Books, Other resources</b>
<b>Suggested Readings:</b>
<b>Suggested digital platforms web links-----</b>
<b>Suggested equivalent online courses:-----</b>

<b>Part D-Assessment and Evaluation</b>			
<b>Suggested Continuous Evaluation Methods:</b>			
Maximum Marks : 100			
Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 30 marks University Exam (UE) 70 marks			
Internal Assessment	Marks	External Assessment	Marks
Class Interaction /Quiz		Viva Voce on Practical	
Attendance		Practical Record File	
Assignments (Charts/ Model Seminar / Rural Service/ Technology Dissemination/ Report of Excursion/ Lab Visits/ Survey / Industrial visit)		Table work / Experiments	
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>		<b>70</b>
<b>Any remarks/ suggestions:</b>			

## प्रायोगिक प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम

<b>भाग अ- परिचय</b>			
कार्यक्रम: डिप्लोमा	कक्षा : B.Sc.	वर्ष: द्वितीय	सत्र: 2022 – 23
<b>विषय: वनस्पतिशास्त्र</b>			
1	पाठ्यक्रम का कोड	<b>S2-BOTA2P</b>	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	औद्योगिक वनस्पति विज्ञान प्रायोगिक	
3	पाठ्यक्रम का प्रकारः(कोर कोर्स / इलेक्टिव/ जेनेरिक इलेक्टिव/ वोकेशनल/.....)	मेजर – 2 / माइनर / वैकल्पिक	
4	पूर्वपिक्षा(Pre-requisite) (यदि कोई हो)	इस कोर्स का अध्ययन करने के लिए, विद्यार्थी ने विषय वनस्पतिशास्त्र / जीवविज्ञान / विज्ञान का अध्ययन कक्षा प्रथम वर्ष / प्रमाण पत्र में किया हो।	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलिखियाँ (कोर्सलर्निंगआउटकम) (CLO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>विद्यार्थी पौधे आधारित उद्योगों में उपयोगी होने वाले पौधों के विभिन्न भागों को पहचान सकेंगे</li> <li>यह पाठ्यक्रम छोटे या बड़े पैमाने पर पौधे आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करेगा</li> </ul>	
6	क्रेडिटमान	02	
7	कुलअंक	अधिकतम अंक: $30+70=100$	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 33
<b>भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु</b>			
<b>व्याख्यान की कुलसंख्या-00- घूटोरियल-00- प्रायोगिक -30- (प्रति सप्ताह 02 घंटे में): L-T-P:</b>			
इकाई	विषय		
I-V	1. स्थानीय रूप से उपलब्ध फूलों से होली के रंग तैयार करना 2. स्थानीय रूप से उपलब्ध फूलों से खाद्य रंग तैयार करना 3. आसवन विधि द्वारा इत्र निष्कर्षण प्रक्रिया का अध्ययन करना 4. जैम, जेली और अचार की तैयारी और संरक्षण तकनीक का अध्ययन करना 5. रस (नींबू और संतरा आदि) का निष्कर्षण और संरक्षण का अध्ययन करना।	व्याख्यान की संख्या	
		30	

	<p>6. विभिन्न प्रकार की चाय (तुलसी की चाय, नींबू की चाय आदि) तैयार करना।</p> <p>7. तेल देने वाली पत्तियों की पहचान, संग्रह और निष्कर्षण का अध्ययन करना।</p> <p>8. पत्तेदार मसालों की पहचान, संग्रह और नमूना तैयार करना।</p> <p>9. पलाश और केले के पत्तों से दौना और पत्तल तैयार करने का प्रशिक्षण।</p> <p>10. किसी पौधों आधारित औद्योगिक इकाई का भ्रमण।</p> <p>11. विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त पौधों के विभिन्न भागों के हर्बेरियम तैयार करना।</p> <p>*प्रायोगिक कार्य स्थानीय उपलब्धता के अनुसार किया जा सकता है।</p>	
--	--	--

सार बिंदु (कीवर्ड)/टैग होली, खाद्य रंग, इत्र निष्कर्षण, जैम, जेली और अचार, रस संरक्षण तकनीक, तेल देने वाले पत्ते, पत्तेदार मसाले, पलाश और केले के पत्ते

#### भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

#### भाग द-अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:

**अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:** आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने हेतु पृथक पृथक न्यूनतम प्राप्तांक आना अनिवार्य है।

आंतरिक मूल्यांकन	अंक	बाह्य मूल्यांकन	अंक
कक्षा में संवाद / प्रश्नोत्तरी		प्रायोगिक मौखिक (वायवा)	
उपस्थिति		प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल	
असाइनमेंट (चार्ट/मॉडल/सेमिनार/ग्रामीण सेवा/ प्रौद्योगिकी प्रसार/ भ्रमण (एक्स्कर्सन) की रिपोर्ट/सर्वेक्षण/प्रयोगशाला भ्रमण (लैबविजिट)/औद्योगिक यात्रा		टेबलवर्क/प्रयोग	
कुल अंक	30		70

**Department of Higher Education, Govt. of M.P.**

**Under Graduate Annual Pattern syllabus**

**As recommended by central Board of Studies and approved by Governor of M.P.**

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन  
स्नातक कक्षाओं के लिये वार्षिक पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम  
केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा म0प्र0 के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित  
वर्ष 2022-23

<b>Class/ कक्षा</b>	: B.Sc. तृतीय वर्ष
<b>Paper/ प्रश्न पत्र</b>	: First / प्रथम
<b>Subject/विषय</b>	: Botany / वनस्पति विज्ञान
<b>Title of Subject Group</b>	: Plant Physiology and Biochemistry
<b>विषय समूह का शीर्षक</b>	: पादप कार्यिकी एवं जैव रसायन
<b>Compulsory/अनिवार्य</b>	: Compulsory
<b>Max. Marks अधिकतम</b>	: 40+10 = 50

<b>Unit-1</b>	<p><b>Plant water Relations :</b> Properties of water, Importance of water in plant life, Diffusion, Osmosis &amp; Osmotic relation to plant cell. Water Absorption. Ascent of Sap. Transpiration : Structure &amp; Physiology of Stomata, Mechanism of Transpiration, Factors affecting the rate of Transpiration.</p> <p><b>पादप जल संबंध :</b> जल के गुण, पादप जीवन में जल का महत्व, विसरण, परासरण तथा पादप कोशिका के परासरण संबंध, जल अवशोषण, रसायन।</p> <p><b>वाष्पोत्सर्जन :</b> रस्ते की संरचना एवं कार्यिकी, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक।</p>
<b>Unit-2</b>	<p><b>Plant Nutrition,Biomolecules &amp; Metabolism:</b> Mineral Nutrition, Essential Macro &amp; Micro Nutrients and their role, Absorption of mineral nutrients and Hydroponics, Translocation of organic solutes.</p> <p><b>Biomolecules:</b> Structure classification and functions of Carbohydrates Amino Acids, Proteins and Lipids. Nitrogen fixation, Nitrogen and Lipid metabolism.</p> <p><b>पादप पोषण,जैविक अणु एवं उपापचय :</b> खनिज पोषण, आवश्यक दीर्घ एवं लघु पोषक तत्व एवं उनकी भूमिका, खनिज लक्षणों का अवशोषण, जल संवर्धन, कार्बनिक विलेय का स्थानांतरण।</p> <p><b>जैविक अणु –</b> कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन और लिपिड की संरचना, वर्गीकरण और कार्य। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन एवं वसा उपापचय।</p>
<b>Unit-3</b>	<p><b>Photosynthesis :</b> Chloroplast, Photosynthetic pigments, Concept of two photosystems, Light reaction, Red drop, Emerson's effect, Dark reaction – Calvin cycle, Hatch &amp; Slack cycle, CAM cycle, Factors affecting rate of photosynthesis &amp; Photorespiration.</p> <p><b>प्रकाश संश्लेषण :</b> क्लोरोफ्लास्ट, प्रकाश संश्लेषीय वर्णक, दो प्रकाश तंत्र की अवधारणा, प्रकाश अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया, रेड ड्राप, इमरसन प्रभाव, केलविन चक्र, हैच एवं स्लैक चक्र, सी ए एम चक्र, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक एवं प्रकाशीय श्वसन।</p>

Ques 3/6/19  
SSB 3/6/19  
1/6/19 3/6/19 4/6/19 5/6/19 6/6/19 7/6/19  
Ans 3/6/2019  
Shivam 3/6/19

13

<b>Unit-4</b>	<p><b>Respiration :</b> Mitochondria, aerobic and anaerobic respiration, fermentation, Respiratory coefficient, mechanism of respiration – Glycolysis, Kreb's cycle, Pentose Phosphate Pathway, Electron transport system, Factors affecting rate of respiration, Redox potential and theories of ATP Synthesis.</p> <p><b>श्वसन :</b> माइटोकॉन्ड्रिया, आक्सी एवं अनाक्सी श्वसन, किण्वन श्वसन गुणांक, श्वसन की क्रियाविधि – ग्लाइकोलिसिस, क्रेब चक्र, पेन्टोस फास्फेट मार्ग, इलेक्ट्रान अभिगमन तत्र, श्वसन की दर को प्रभावित करने वाले कारक, आक्सीकरण – अपचयन विभव, ए.टी.पी. संश्लेषण के सिद्धांत।</p>
<b>Unit-5</b>	<p><b>Enzymology &amp; Plant Hormones :</b> Classification, nomenclature and characteristics of Enzymes, Concept of holoenzyme, apoenzyme, co-enzyme and co-factors, Mode &amp; mechanism of enzyme action, Factors affecting enzyme activity.</p> <p><b>Plant Hormones :</b> Discovery, Structure mode of action and role of auxins, Gibberellins, Cytokinin, Abscisic Acid and Ethylene.</p> <p><b>एंजाइमोलॉजी एवं पादप हार्मोन्स :</b> विकरो का वर्गीकरण, नामकरण एवं अभिलाक्षणिक गुण, होलोएन्जाइम, एपोएन्जाइम, कोएन्जाइम एवं कोफेक्टर्स की अवधारणा, एन्जाइम की कार्यप्रणाली एवं क्रियाविधि, एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक।</p> <p><b>पादप हार्मोन :</b> आक्जिन, जिब्बरेलिन, सायटोकायनिन, एब्सीसिक अम्ल एवं झूथीलीन की खोज, संरचना कार्य प्रणाली एवं भूमिका।</p>

## SUGGESTED READINGS :-

1. David, L.N. and Michael, M.C. 2000. Leheniger's Principle of Biochemistry, Macmillan worth Pub. New York, U.S.A.
  2. Gengulee, H.C. Das, Datta, C. and sen, S. 2007. College Botany Voll. I, New Central Book Agency (P) Ltd. Kolkata. 700009
  3. Hopkins, W.G. 1995. Introduction of Plant Physiology Pub. John Wiley and sons, New York.
  4. Taiz & Zeiger, E, 1998. Plant Physiology. Sinauer associates, Inc. Pub. Massachudetts, U.S.A.
  5. Salisbury & Ross – Plant Physiology.
  6. Devlin - Plant Physiology .
  7. Verma, S.K. & Verma, M.A. 1995. Text Book of Plant Physiology & Biotechnology. S. Chand & Company.
  8. Verma, V. 1995. Plant Physiology, Emkey Pub.

~~S. S. S. S.~~  
3/6/19      ~~W. W. W. W.~~  
~~3/6/19~~  
3/6/19      ~~W. W. W. W.~~  
~~3/6/19~~

**Department of Higher Education, Govt. of M.P.**


**Under Graduate Annual Pattern Syllabus  
As recommended by Central Board of Studies and approved by the Governor of M.P.**

**उच्च शिक्षा विभाग म0प्र0 शासन**  
**स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक पद्धति अनुसार पाठ्यक्रम**  
**केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशासित तथा म0प्र0 के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित**  
**सत्र 2022-23**

<b>Class / कक्षा</b>	:	B.Sc. तृतीय वर्ष
<b>Paper / प्रश्न पत्र</b>	:	Second/द्वितीय
<b>Subject / विषय</b>	:	Botany
<b>Title of Subject Group</b>	:	Cell Biology, Genetics and Biotechnology
<b>विषय समूह का शीर्षक</b>	:	कोशिका जैविकी, अनुवांशिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी
<b>Compulsory / अनिवार्य</b>	:	Compulsory
<b>Max. Marks अधिकतम</b>	:	40+10 = 50

**Particulars / विवरण**

<b>Unit-I</b>	<p><b>The cell envelops and organelles:</b> Techniques of cell biology, Prokaryotic and Eukaryotic cell structure and plasma membrane, lipid bilayer structure, functions of the cell wall. Structure and function of cell organelles: Nucleus Chloroplast, Mitochondria, Golgi bodies, ER, Peroxisome and Vacuole. Cell signalling and cell receptors, signal transduction.</p> <p><b>कोशिका आवरण एवं कोशिकांग :</b> कोशिका जीवविज्ञान की तकनीकी, पूर्वाभिक एवं सत्यनाभिक कोशिका संरचना। प्लाज्मा फ़िल्ली, द्विस्तरीय लिपिड संरचना, कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिकांगकों की संरचना एवं कार्य : केन्द्रक, हरित लवक, माइटोकॉण्ड्रिया, गॉल्जीकाय, अतः द्रव्य जालिका, परऑक्सीसोम एवं रिकितकाएं। कोशिका संकेतन एवं कोशिका ग्राही। संकेत पारगमन।</p>
<b>Unit-II</b>	<p><b>Chromosomal organization :</b> Structure and functions of Chromosome, centromere and telomere. Nucleosome model, special types of chromosomes, Mitosis and Meiosis. Variation in chromosome Structure : Deletion, Duplication, Translocation and Inversion; Variation in chromosome number, Euploidy, Aneuploidy, DNA: The genetic material, DNA Structure and replication.</p> <p><b>गुणसूत्र संगठन :</b> क्रोमोसोम, सेन्ट्रोमियर एवं टीलोमियर की आकारिकी एवं कार्य। न्यूकिलयासोम मॉडल। विशेष प्रकार के क्रोमोसोम्स, समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन। गुणसूत्र संरचना में विभिन्नताएँ : विलोपन, द्विगुणन, स्थानान्तरण एवं प्रतिलोमीकरण। गुणसूत्र संख्या में विभिन्नताएँ। यूप्लायडी, एन्यूप्लॉयडी। डी.एन.ए. : आनुवांशिक पदार्थ। डी.एन.ए. की संरचना एवं पुनरावृत्ति।</p>
<b>Unit-III</b>	<p><b>Genetic inheritance:</b> Mendelism: Law of Dominance, laws of segregation and independent assortment; Linkage analysis; Interactions of genes. Cytoplasmic inheritance, Mutations: spontaneous and induced: Transposable elements; DNA damage and repair.</p>


 15/6/19 3/6/19 3/6/19 3/6/19 3/6/19 3/6/19 3/6/19 3/6/19 3/6/19

	<p><b>आनुवांशिक वंशांगति :</b> मैण्डलवादः प्रभाविता का सिद्धांत, पृथक्करण एवं स्वतंत्र अपव्यहून के नियम, सहलान्ता विश्लेषण, जीन की अन्योन्य क्रियाएँ। कोशिका द्रवीय वंशांगति, उत्परिवर्तनः स्वतः, प्रेरित उत्परिवर्तन, स्थानान्तरणशील अवयव। डी.एन.ए. क्षति एवं सुधार।</p>
<b>Unit-IV</b>	<p><b>Gene :</b> Development of Genetics, Structure of Gene, Gene verses allele genetic code, transfer of genetic information; Transcription, translation, protein synthesis, t RNA, and ribosomes. Regulation of gene expression in prokaryotes and eukaryotes. Organic evolution – Role of RNA in origin and evolution.</p> <p><b>जीन :</b> आनुवांशिकी का विकास, जीन की संरचना, जीन और युग्म विकल्पी अवधारणा, आनुवांशिक कोड, आनुवांशिक सूचना का स्थानान्तरण, अनुलेखन अनुवाद, प्रोटीन संश्लेषण, ट्रांसफर आर.एन.ए., राइबोसोम्स। प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जैवउद्दिविकास— आर.एन.ए की उद्भव और उद्विकास में भूमिका।</p>
<b>Unit-V</b>	<p><b>Plant Breeding :</b> Introduction, Methods Selection and Hybridization (Pedigree, backcross, mass selection and bulk method)</p> <p><b>Biotechnology :</b> Definition; basic aspects of plant tissue culture; cellular totipotency, differentiation and morphogenesis Important achievements of biotechnology in agriculture.</p> <p><b>Genetic engineering:</b> Tools and techniques of recombinant DNA technology; cloning vectors; biology of Agrobacterium; vectors for gene delivery and marker genes. DNA fingerprinting genomic and cDNA library: Gene mapping and chromosome walking.</p> <p><b>Biostatistics:</b> Introduction and application.</p> <p><b>पादप अभिजननः</b> परिचय, विधि, चयन एवं संकरण (वंशावली, प्रतिसंकरण, समूह चयन, पुँज विधि)</p> <p><b>जैव प्रौद्योगिकी :</b> परिभाषा, पादप ऊतक संवर्धन का आधारभूत तत्व, कोशीकीय टोटीपोटेंसी, विभेदीकरण एवं मार्फोजेनेसिस,, जैव प्रौद्योगिकी की कृषि में प्रमुख उपलब्धियाँ।</p> <p><b>अनुवांशिक अभियांत्रिकी :</b> पुनर्योजक डी.एन.ए. तकनीकी के औजार एवं तकनीक, क्लोनल वाहक, एग्रोबैक्टीरियम की जैविकी, जीन डिलिवरी के वाहक तथा मार्कर जीन, डी.एन.ए. अँगूली छापन। जीनोमिक तथा सी.डी.एन.ए. लाइब्रेरी, जीन मेपिंग तथा गुणसूत्र वाकिग।</p> <p><b>जैव सांख्यिकी:</b> परिचय एवं अनुप्रयोग।</p>

### SUGGESTED READINGS :-

- Alberts B.D. Lewis, J. Raff, M. Rubers, K. Nad Watson I.D. 1999 molecular Biology of Cell Garland pub.Co. Inc. New York, U.S.A.
- P.K. Gupta 1999 a text Book of Cell and Molecular Biology Rastogi Pub. Meerut India.
- Kleinsmith L.J. and Molecular Biology (2<sup>nd</sup> edition) Harper Collins College Pub. New York USA.
- P.K. Gupta Genetics Rastogi Pub. Meerut.
- Sinha & Sinha Cytogenetics & Plant Breeding Vikas Pub.

3/6/19 3/6/19 3/6/19 3/6/19 3/6/19 3/6/19 3/6/19 3/6/19 3/6/19

## PRACTICAL SCHEME

**B.sc. III Year (BOTANY)**  
**Session 2022-23**  
**(BASED ON PAPER I & II)**

50 MARKS

1.	Exercise based on Physiology	-	10
2.	Biochemical Test	-	05
3.	Exercise based on Cytology	-	10
4.	Exercise based on Genetic Problem	-	05
5.	Spotting (01-05)	-	10
6.	Viva Voce	-	05
7.	Sessionals	-	05

7. Sessionals

~~SSR~~ 3/6/19 ~~Night~~ 3.6.19 ~~Singh~~ 3.6.19 ~~SSR~~ 3/6/19 ~~SSR~~ 3/6/19 ~~SSR~~ 3/6/19